

प्रिय अभिभावक-गण,

जैसा कि आपको अवगत होगा कि सभी छात्रों की प्रथम टर्म की प्रथम ऑनलाइन परीक्षा समाप्त हो चुकी है। समस्त अभिभावक भी अब उक्त परीक्षाओं में अपने बच्चों के प्राप्तांक एवं उनकी शैक्षिक गतिविधियों को जानने के इच्छुक होंगे। इस क्रम में विद्यालय प्रशासन द्वारा समस्त कक्षाओं हेतु 'ऑनलाइन अभिभावक-शिक्षक सभा' आयोजित की जा रही है जिसके लिए निम्न तिथि एवं समय निर्धारित किया गया है-

दिनांक: 12 सितम्बर, 2020 (दिन शनिवार)

प्रातः 8:00 बजे से 10 बजे तक

कक्षा प्री-नर्सरी से कक्षा 2 तक (समस्त शाखाओं के लिए)

अपराह्न 3:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक

कक्षा 8-C, 8-F एवं 7-F (साउथ सिटी शाखा की कक्षाओं के लिए)

कक्षा 8-A (सेक्टर-आई शाखा के लिए)

कक्षा 2-बी (सेक्टर -सी) एवं 3-ए (सेक्टर -बी) (उन्नाव शाखा के लिए) *

कक्षा प्री-नर्सरी एवं 9-बी (गोमती नगर शाखा के लिए)

सांय 5:15 बजे से सांय 7:15 बजे तक

कक्षा 9 से कक्षा 12 तक

दिनांक: 13 सितम्बर, 2020 (दिन रविवार)

प्रातः 8:00 बजे से 10 बजे तक

कक्षा 3-A, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A एवं 8-A

प्रातः 10:15 बजे से अपराह्न 12:15 बजे तक

कक्षा 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-B एवं 8-G*

अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक

3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C एवं 8-C

अपराह्न 2:45 बजे से सांय 4:45 बजे तक

3-D, 4-D, 5-D, 6-D, 7-D, 8-D

सांय 5:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक

3-E, 4-E, 5-E, 6-E, 7-E, 8-E

अभिभावकों हेतु आवश्यक निर्देश

उक्त बैठक हेतु कुछ आवश्यक निर्देश आप समस्त अभिभावकों को प्रेषित किए जा रहे हैं जिन्हें कृपया गंभीरतापूर्वक अपने संज्ञान में लेने का कष्ट करें-

1. ऑनलाइन अभिभावक-शिक्षक सभा हेतु कक्षानुसार समय-सारिणी सभी शाखाओं में प्रेषित की जा रही है। अभिभावक कृपया अपने बच्चों की कक्षा, वर्ग एवं बैठक का समय ध्यानपूर्वक अपने संज्ञान में लेने का कष्ट करें।

2. अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि बैठक की समयावधि प्रत्येक कक्षा के लिए 2 घंटे निर्धारित की गयी है। प्रत्येक अभिभावक एवं कक्षाध्यापक सुगमतापूर्वक परस्पर वार्ता कर सकें एवं अपने सुझावों को साझा कर सकें, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बैठक में प्रत्येक कक्षा के छात्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अभिभावक से वार्ता का निश्चित समय कक्षाध्यापक द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जायेगा।

3. अभिभावक कृपया सुनिश्चित हों कि ऑनलाइन बैठक के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। पूर्व में आयोजित हुई बैठक की भांति इस बार भी अभिभावक अपने बच्चे की लॉग-इन आई-डी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं।

4. शनिवार दिनांक 12 सितंबर, 2020 को सभी कक्षाओं के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएँ अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार ही संचालित होंगी।

5. समस्त अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों की शिक्षण संबंधी समस्या अथवा किसी भी प्रकार की शंका के निवारण अथवा सुझावों हेतु बैठक में अवश्य उपस्थित होने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

(प्रधानाचार्या)